

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 6, 1969/कार्तिक 15, 1891
No. 376] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1969/KARTIKA 15, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4537.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Export of Frog Legs (Inspection) Second Amendment Rules, 1969.

2. In the Export of Frog Legs (Inspection) Rules, 1965, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. *Inspection fees.*—A fee of three paise for every Kg. of frog legs or part thereof shall be charged for inspection under these rules.”

[No. F. 60(39)/Exp.Insp./67.]

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

(1419)

